

# अगुवा –मार्गदर्शिका

## इस बाईबल अध्ययन का प्रयोग कैसे करें

यह बाईबल अध्ययन आगुओं के लिए सरल साधन है, जो अपने समूह को आकर्षक और संवादात्मक तरीके से बाईबल अध्ययन की अगुवाई करने में मार्गदर्शन करता है | इस अध्ययन की सरलता और गहराई हर उम्र और स्तर के बिश्वास करने वाले लोगों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, धर्मशास्त्र की खोज करने के लिए उत्साहित करता है .

यह अध्ययन सहभागियों के लिए धर्मशास्त्र का एक भाग, सामूहिक सभा और आने वाले सप्ताह की तयारी में स्वयं के प्रयोग के लिए मार्गदर्शन करता है |

साहभागी, दिए गए पद को प्रतिदिन पढ़ते हैं, समझने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, और प्रति दिन के प्रश्नों को पूरा करते हैं | प्रतिदिन, पवित्रात्मा धर्मशास्त्र के भाग की गहराई को प्रकट करता है और समझने में मदद करता है | सहभागी परमेश्वर के वचन को सक्रिय रूप से अध्ययन करते हैं | नीचे दिए गए बाईबल अध्ययन के सरल तरीकों से व्यक्तिगत खोज करते और परिवर्तनशील सच्चाई को व्यवहार में लाते हैं |

- **अवलोकन**

वचन क्या कहता है ?

मुख्य विचार क्या है ?

- **अनुवाद**

वचन का अर्थ क्या है ?

महत्वपूर्ण शब्द ,पद और सच्चाई क्या है ?

- **प्रयोग**

पवित्रात्मा अपने जीवन में इस वचन का प्रयोग कैसे करने के लिए अगुवाई कर रहा है ?

## एक बाईबल अध्ययन समूह का आरम्भ कैसे करें

हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर की इच्छा है कि आप जो हैं, जंहा रहते हैं, काम करते हैं या जो सामाजिक व्यवस्था है, वंहा आपको अनन्त के लिए प्रभावित करने में इस्तेमाल करें | प्रारम्भ करने के लिए यंहा तीन सरल कदम हैं |

## 1. प्रार्थना

... यह प्रार्थना और सम्बन्ध के साथ आरंभ होता है

### प्रार्थना

- उस मित्र के लिए प्रार्थना करें जो आपको बाइबल अध्ययन समूह आरम्भ करने में सहायता करेगा |
- नियमित रूप से एक साथ प्रार्थना करें | परमेश्वर से उसकी योजना और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें |
- अपने क्षेत्र में चलते हुए प्रार्थना करें | परमेश्वर के आशीर्ष और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें |
- लोगों का नाम लेकर प्रार्थना करें | लोगों से मुलाकात ,उनकी देखभाल और उनकी सेवा का अवसर मिलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें |देखभाल करने का काम लोगों के हृदय को खोलता है और सम्बन्ध को मजबूत बनाता है |
- उनके बाइबल अध्ययन में रुचि लेने के लिए प्रार्थना करें |

### संबन्ध:-

- उन लोगों के साथ मिलें जो आपके नजदीक रहते,काम करते और समाज से जुड़े हैं | मित्र बने और उत्साहित करें |
- बातचीत करने का पहल करें - अच्छे प्रश्न पूछें और अच्छा सुनने वाला बनें |
- एक साथ कॉफ़ी,चाय या भोजन में समय बितायें |
- प्रेम प्रकट करने ,देने और सेवा करने का अवसर ढूँढें |

## 2. जुड़े रहना

.... रुचि रखने वालों को ढूँढें

### एकत्रित होने की योजना बनायें

- तारीख ,समय और स्थान निश्चित करें
- आने के लिए इच्छुक लोगों की सूची बनायें
- प्रार्थना के साथ निमंत्रण दें |
- यदि आप चाहें तो नाश्ता का प्रबन्ध करें |
- बातचीत करने के लिए प्रश्नों की सूची या समूह से” परिचित” होने का कार्यक्रम रखें |

### समूह को अगुवाई करने का मार्गदर्शन

- यदि इच्छा हो ,तो कॉफ़ी ,चाय और नाश्ता का इंतजाम करें |
- स्वागत करें ,अपना परिचय दें और एक दुसरे को जानें (प्रश्नों का प्रयोग या एक दुसरे के साथ आनंद उठाने का अवसर दें |

- समय की समाप्ति पर कुछ इस प्रकार कहें “ हमने एक साथ बहुत अच्छा समय बिताये | मैं एक अच्छा वातावरण और एक देखभाल करने वाला समुदाय बनाना चाहता हूँ , जहाँ एक साथ बाईबल अध्ययन कर सकें और जो कहता है और हम से सम्बद्ध रखता है, उसका खोज कर सकें | यदि आप इच्छुक हैं तो कृपया जानकारी दीजिये”

### 3. अगुवाई

... अब आरम्भ करें

- प्रत्येक व्यक्ति के लिए अध्ययन मार्गदर्शिका की कॉपी डौनलोड और प्रिंट करें
- अध्ययन मार्गदर्शिका में सुझाव दिए गए धर्मशास्त्र के चार समूहों में से एक को चुनें
- सहभागियों को प्रतिदिन के प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए नॉट बुक की आवश्यकता होगी |

बाईबल अध्यायन समूह की अगुवाई कैसे करें

**संक्षिप्त प्रार्थना के साथ आरम्भ करें**

- विषय “लाईट” सम्बन्धी कहानी को पढ़ें, जिसके नीचे अध्ययन का विषय दिया गया है |
- सहभागियों को धर्मशास्त्र का पद पढ़ने के लिए कहें |
- अध्ययन मार्गदर्शिका में दिए गए प्रतिदिन के प्रश्नों पर विचार विमर्श करें |
- शान्त रहने पर डरें नहीं ,उत्तर का इन्तजार करें . लक्ष्य आगुवों के उत्तर देने का नहीं विचार विमर्श है |
- प्रभावपूर्ण विचार के लिए सहयोगपूर्ण निर्देशन का समूह को नियमित रूप से याद दिलाना महत्वपूर्ण है |
  - जोर से बोलें ताकि सभी लोग आवाज को सुन सकें |
  - उतेरों का वर्णन संछिप्त में दें ,लम्बी कहानी नहीं |
  - विचार विमर्श को ख्रीस्त और बाईबल केन्द्रित रखें |
  - केन्द्रित रहें और विवादस्पद बातों को रोके |

समूह को इस बात की निश्चयता दें कि प्रत्येक सहभागियों के जीवन की आत्मिक यात्रा में चाहे वे जिस भी परिस्थिति में हैं, पवित्रात्मा अपने वचन को पूरा करेगा और उनको वह शिक्षा दें ,जो उनको अपने जीवन के लिए जानना है और जीवन में प्रयोग करना है |

- सत्र के अंत में ,अगले सप्ताह के लिए निश्चित धर्मशास्त्र के पदों को पढ़ने के लिए दें |
- समूह को उत्साहित करें कि अन्य लोगों को अध्यायन समूह में आने के लिए निमंत्रण दें |यह नये लोगों के लिए स्वागतयोग्य वातावरण और देखभाल करने वाली समुदाय का निर्माण करता है
- संक्षिप्त प्रार्थना द्वारा सत्र को समाप्त करें |

अध्यायन को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फोलोअप प्रश्न:-

- परमेश्वर और क्या सिखाया ?
- क्या पूर्ण तरीके से अपने उतारों का वर्णन कर सकते हैं ।
- क्या कोई और इन उतारों में जोड़ सकता है ?
- इस पद में सबसे अधिक आपको क्या प्रभावित करता है ?

## प्रस्तावना :

बहुत से समुद्री कछुए के उप जाति संकटग्रस्त हैं ।इसका कारण हिंसक जानवर ,मनुष्य या प्रदूषण के कारण नहीं ,परन्तु समुद्री किनारे पर बड़े हुए कृत्रिम रोशनी के कारण से है ।

परमेश्वर समुद्री कछुए को पूर्णचंद्र पर पैदा होने के लिए सृजा है, जब कछुए के बच्चे पैदा होते हैं तो चंद्रमा की रोशनी उनको अपने स्वाभाविक निवासस्थान—समुद्र तक जाने में मार्गदर्शन करता है --समुद्री कछुए पानी में जीवित रहता है । अनुसन्धान करने वाले आश्चर्य चकित होते हैं जब उनको समुद्री छोटे कछुए की मौत का कारण मालूम होता है, उनके मौत का कारण पुनर्चंद्रमा की रोशनी का रास्ता होते हुए ,कृत्रिम रोशनी जो समुद्री रोशनी के घर से निकलता है, उनकी यात्रा को विचलित कर देता है और उनको मृत्यु की ओर खिंच लेता है ।

यह बाईबल अध्ययन आपको यीशु की अप्रतिरोध्य रोशनी की ओर आकर्षित करेगा । "मैं जगत की ज्योति हूँ ----ज्योति जो जोवन की ओर अगुवाई करता है " (यूहन्ना 8:12 ).यह आपको उसके वचन की ओर भी खींचेगा ---"मेरा वचन तेरे पावों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है"( भजन 119:105 ) और आपको अंधकार भरे संसार में खीस्त की ज्योति होने के लिए शक्ति प्रदान करेगा ।"तुम जगत की ज्योति हो ---ऐसा चमको की सब लोग देखें "(मती 5:14)

प्रतिदिन जब आप उसको पढ़ेंगे ,मनन करेंगे और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्रयोग करेंगे तो शत्रु की कृत्रिम रोशनी को निष्क्रिय करने के लिए अच्छी तरह तैयार होंगे । परमेश्वर के ज्योतिर्मय रास्ते में बने रहेंगे और अपने घर में और समुदाय में खीस्त के लिए चमकते हुए प्रकाश बने रहेंगे । यीशु के जीवन ,अद्भुत और यीशु के सन्देश पर केन्द्रित चार रोशनी अध्ययन की खोज करें ।



ज्योति © 2017 NBS2GO. को सभी अधिकार सुरक्षित हैं, मूलरूप से इंग्लिश में इस प्रकार प्रकाशित है LIGHT © 2016 NBS2GO.

अनुवाद और सांस्कृतिक रूप से रूपान्तरित द्वारा :- NBS2GO. <http://www.nbs2go.com>